

B.A. (Part-III) Examination
(Optional Subject)
CO-OPERATION

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 100

Note :—(1) **ALL** questions are compulsory.

(2) Each question carries **20** marks.

1. Choose the correct options :

(1) In which book are the detailed notes of the meeting work written ?

(a) Minutes

(b) By-Laws

(c) Memorandum 1

(2) Who calls the first general meeting of co-operative society ?

(a) Chairman

(b) Auditor

(c) Promoter 1

(3) Who chooses the President of the first general meeting ?

(a) Central Government

(b) Registrar

(c) Person who are present for meeting 1

(4) In which year the first co-operative law was implemented in India ?

(a) 1901

(b) 1904

(c) 1905 1

(5) In co-operative society meeting, how much majority is necessary to pass the resolution to cancel the membership of the member ?

(a) $\frac{3}{4}$

(b) $\frac{2}{3}$

(c) $\frac{2}{4}$ 1

- (6) For the lawful meeting, what is the necessary number of members called ?
- (a) Legal number
 - (b) Quorum
 - (c) Population 1
- (7) Who does not have the ownership of co-operative society ?
- (a) President
 - (b) Member
 - (c) Auditor 1
- (8) Who does control over the meeting of co-operative society ?
- (a) President of Meeting
 - (b) Secretary
 - (c) Auditor 1
- (9) On whose recommendation, in India, the Co-Operative Society Act 1904 was implemented ?
- (a) Sir Edward Law
 - (b) Robert Owen
 - (c) Vaikunthalal Mehta 1

- (10) In which year, was the Maharashtra State Co-operative Society Act implemented ?
- (a) 1904
- (b) 1932
- (c) 1960 1
- (11) How many votes are necessary to pass the resolution to change the by-laws ?
- (a) $\frac{2}{3}$
- (b) $\frac{3}{4}$
- (c) $\frac{2}{4}$ 1
- (12) How many times Annual General meeting should be called in a year ?
- (a) 01
- (b) 02
- (c) 03 1
- (13) What do you call for granted proposal in a meeting of co-operative society ?
- (a) Particulars
- (b) Resolution
- (c) Notes 1

- (14) Whom do you call Brahma, Vishnu, Mahesh in the co-operative movement ?
- (a) President
 - (b) Registrar
 - (c) Secretary 1
- (15) Which meeting is compulsory in a year for the co-operative society by law ?
- (a) Annual general meeting
 - (b) Special general meeting
 - (c) First general meeting 1
- (16) In which year the present Multistate Co-Operative Society Act has been implemented ?
- (a) . 1944
 - (b) 1960
 - (c) 2002 1
- (17) To call special general meeting, how many members demand in writing is necessary ?
- (a) $\frac{1}{3}$
 - (b) $\frac{1}{4}$
 - (c) $\frac{1}{5}$ 1

- (18) Who has the authority to extend the limit of Annual General Meeting ?
- (a) Secretary
 - (b) Registrar
 - (c) President 1
- (19) Who has the authority to give the casting vote in a meeting of co-operative society ?
- (a) Secretary
 - (b) President of meeting
 - (c) Auditor 1
- (20) How many minimum members were necessary to establish the co-operative society by the Co-operative Law of 1912 ?
- (a) 05
 - (b) 07
 - (c) 10 1
2. Answer the following questions :
- (a) What is meant by Subsidiary Book ? 5
 - (b) What is meant by Cash Book ? 5
 - (c) What is meant by Book-keeping ? 5
 - (d) Explain the structure of Purchase Book. 5

OR

- (e) State the advantages of Subsidiary Book. 5
 - (f) What is meant by two Columns Cash Book ? 5
 - (g) State the advantages of Book-Keeping. 5
 - (h) What is meant by Simple Cash Book ? 5
3. What is Bank Reconciliation Statement ? Why is it prepared ?
State the importance of Bank Reconciliation Statement.

20

OR

From the following information, prepare bank reconciliation statement of Shri Jagtap as on 31 March, 2014 :-

- (1) Bank balance as per Cash Book is Rs. 10,000.
- (2) Shri. Rahul directly deposited in our bank account Rs. 800. But it was not recorded in the Cash Book.
- (3) Cheque of Rs. 500 issued to Shri Hari but was not presented in bank for payment.
- (4) Interest deposited in pass book Rs. 300 but not recorded in Cash Book.
- (5) Bank cheque recorded in Cash Book but not deposited in bank Rs. 200.
- (6) Bank charges of Rs. 100 were not entered in the Cash Book.

20

4. What is meant by Trial Balance ? Explain the different methods of preparing Trial Balance. 20

OR

From the following Trial Balance of Consumer Co-operative Society, Nandgaon as on 31 March, 2014, prepare Trading and Profit and Loss Account for the year ending on 31st March 2014 and Balance Sheet as on that date :

Particulars	Debit (Rs.)	Credit (Rs.)
Opening Stock	40,000	—
Purchases	2,00,000	—
Wages	20,000	—
Carriages	10,000	—
Machinery	1,50,000	—
Salaries	20,000	—
Office Expenses	10,000	—
Interest	15,000	—
Cash in Bank	10,000	—
Cash in Hand	5,000	—
Debtor	40,000	—
Investment	50,000	—
Rent	12,000	—
Advertisement	18,000	—
Capital	—	2,00,000
Sales	—	3,50,000
Creditor	—	30,000
Bank loan	—	20,000
	6,00,000	6,00,000

Adjustment : Closing stock was valued at Rs. 5,000.

5. Answer the following questions :

- (a) What is meant by Final Audit ? 5
- (b) What is meant by Audit Class ? 5
- (c) What is meant by Co-operative Audit ? 5
- (d) State the advantages of Co-operative Audit. 5

OR

- (e) What are the responsibilities of a Co-operative Auditor ? 5
- (f) What is meant by Interim Audit ? 5
- (g) Explain the powers of Co-operative Auditor. 5
- (h) What is meant by a Continuous Audit ? 5

(मराठी माध्यम)

सूचना :—(1) सर्व प्रश्न सोडविणे अनिवार्य आहे.

(2) प्रत्येक प्रश्नास 20 गुण आहेत.

1. योग्य पर्याय निवडा :

- (1) सभेच्या कामकाजाची सविस्तर नोंद कोणत्या पुस्तकात केली जाते ?
 - (अ) इतिवृत
 - (ब) उपविधी
 - (क) घटनापत्रक

1

- (2) सहकारी संस्थेची पहिली साधारण सभा कोण बोलावतो ?
- (अ) अध्यक्ष
- (ब) अंकेक्षक
- (क) प्रवर्तक 1
- (3) पहिल्या साधारण सभेच्या अध्यक्षीय निवड कोण करते ?
- (अ) केन्द्र सरकार
- (ब) निबंधक
- (क) सभेला उपस्थित व्यक्ति 1
- (4) भारतात पहिला सहकारी कायदा कोणत्या वर्षी लागू करण्यात आला ?
- (अ) 1901
- (ब) 1904
- (क) 1905 1
- (5) सहकारी संस्थेच्या सभेत सभासदांचे सभासदत्व रद्द करण्याचा ठराव संमत करण्याकरिता किती बहुमताची गरज असते ?
- (अ) $\frac{3}{4}$
- (ब) $\frac{2}{3}$
- (क) $\frac{2}{4}$ 1

- (6) सभा कायदेशीर होण्याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सभासदांच्या संख्येला काय म्हणतात ?
- (अ) कायदेशीर संख्या
(ब) गणसंख्या
(क) लोकसंख्या 1
- (7) सहकारी संस्थेची मालकी कोणाकडे नसते ?
- (अ) अध्यक्ष
(ब) सभासद
(क) अंकेक्षक 1
- (8) सहकारी संस्थेच्या सभेवर कोण नियंत्रण ठेवतो ?
- (अ) सभेच्या अध्यक्ष
(ब) सचिव
(क) अंकेक्षक 1
- (9) कोणाच्या शिफारशीवरून भारतात 1904 चा सहकारी कायदा लागू करण्यात आला ?
- (अ) सर एडवर्ड लॉ
(ब) रॉबर्ट ओवेन
(क) वेंकुठलाल मेहता 1
- (10) महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था कायदा कोणत्या वर्षी लागू करण्यात आला ?
- (अ) 1904
(ब) 1932
(क) 1960 1

(11) पोटनियमात बदल करण्याकरीता ठरावाच्या बाजूने किती मते मिळणे आवश्यक आहे ?

(अ) $\frac{2}{3}$

(ब) $\frac{3}{4}$

(क) $\frac{2}{4}$

1

(12) वार्षिक साधारण सभा वर्षातून किती वेळा बोलाविता येते ?

(अ) 01

(ब) 02

(क) 03

1

(13) सहकारी संस्थेच्या सभेमध्ये मंजूर केलेल्या प्रस्तावास काय म्हणतात ?

(अ) विवरण

(ब) ठराव

(क) टिपण

1

(14) सहकारी चळवळीत ब्रम्हा, विष्णू, महेश कोणाला म्हणतात ?

(अ) अध्यक्ष

(ब) निबंधक

(क) सचिव

1

(15) सहकारी संस्थेला वर्षातून एकदा कायद्याने कोणती सभा घेणे बंधनकारक असते ?

(अ) वार्षिक साधारण सभा

(ब) विशेष साधारण सभा

(क) पहिली साधारण सभा

1

(16) सहकाऱ्याचा बहुराज्यीय सहकारी कायदा कोणत्या वर्षी लागू करण्यात आला ?

(अ) 1944

(ब) 1960

(क) 2002

1

(17) विशेष साधारण सभा बोलावण्याकरिता किती सभासदांनी लेखी मागणी करणे आवश्यक आहे ?

(अ) $\frac{1}{3}$

(ब) $\frac{1}{4}$

(क) $\frac{1}{5}$

1

(18) सहकारी संस्थेची वार्षिक साधारण सभा घेण्याची मूदत वाढवून देण्याचा अधिकार कोणाला असतो ?

(अ) सचिव

(ब) निबंधक

(क) अध्यक्ष

1

(19) सहकारी संस्थेच्या सभेमध्ये निर्णायक मत देण्याचा अधिकार कोणाला असतो ?

(अ) सचिव

(ब) सभेच्या अध्यक्ष

(क) अंकेक्षक

1

(20) 1912 च्या सहकारी कायद्यानुसार सहकारी संस्था स्थापन करण्यास कमीत कमी किती सभासदांची आवश्यकता होती ?

(अ) 05

(ब) 07

(क) 10

1

2. खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या :

(अ) सहाय्यक पुस्तक म्हणजे काय ?

5

(ब) रोकड पुस्तक म्हणजे काय ?

5

(क) पुस्तपालन म्हणजे काय ?

5

(ड) खरेदी पुस्तकाचे स्वरूप स्पष्ट करा.

5

किंवा

(इ) सहाय्यक पुस्तकाचे फायदे सांगा.

5

(फ) दोन रकान्याचे रोकड पुस्तक म्हणजे काय ?

5

(ग) पुस्तपालनाचे फायदे सांगा.

5

(ह) साधे रोकड पुस्तक म्हणजे काय ?

5

3. अधिकोष समाधान विवरण म्हणजे काय ? ते कशाकरीता तयार करतात ? अधिकोष समाधान विवरणाचे महत्व सांगा.

20

किंवा

खालील माहितीवरून श्री जगताप यांचे 31 मार्च, 2014 रोजीचे अधिकोष समाधान विवरण तयार करा :

(1) रोकड पुस्तकानुसार बँकेतील शिल्लक रु. 10,000.

(2) श्री राहूल यांनी रु. 800 परस्पर बँकेत भरले, परंतु त्याची नोंद, रोकड पुस्तकात केली नाही.

(3) श्री हरी यांना रु. 500 चा चेक दिला पण तो त्यांनी वसुलीसाठी बँकेत दिला नाही.

- (4) बँकेच्या पासबुकात रु. 300 व्याजाचे जमा झाल्याची नोंद आहे, परंतु त्याची नोंद रोकड पुस्तकात केली नाही.
- (5) रोकड पुस्तकात नोंदविलेले परंतु बँकेत जमा न केलेले रु. 200 चे चेक.
- (6) बँकेने आकारलेल्या रु. 100 सेवा शुल्काची नोंद रोकड पुस्तकात नाही. 20

4. परीक्षा सूची म्हणजे काय ? परीक्षा सूची तयार करण्याच्या विविध पद्धती स्पष्ट करा. 20

किंवा

ग्राहक सहकारी संस्था, नांदगावच्या 31 मार्च, 2014, च्या खालील परिक्षासूचीवरून 31 मार्च, 2014 रोजी संपणाऱ्या वर्षाचे व्यापार खाते, नफातोटा खाते व त्याच तारखेचा ताळेबंद तयार करा :

विवरण	नावे (रु.)	जमा (रु.)
प्रारंभण स्कंध	40,000	—
खरेदी	2,00,000	—
मजुरी	20,000	—
हमाली	10,000	—
यंत्रसामुग्री	1,50,000	—
वेतन	20,000	—
कार्यालय खर्च	10,000	—
व्याज	15,000	—
अधिकोषस्थ रोक	10,000	—
हस्तास्थ रोक	5,000	—
ऋणको	40,000	—
गुंतवणुक	50,000	—

विवरण	नावे (रु.)	जमा (रु.)
भाडे	12,000	—
जाहीरात	18,000	—
भाडंवाल	—	2,00,000
विक्री	—	3,50,000
धनको	—	30,000
बँक कर्ज	—	20,000
	6,00,000	6,00,000

समायोजना : शिल्लक मालाची किंमत रु. 5,000 होती. 20

5. खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या :

(अ) वार्षिक अंकेक्षण म्हणजे काय ? 5

(ब) अंकेक्षण वर्ग म्हणजे काय ? 5

(क) सहकारी अंकेक्षण म्हणजे काय ? 5

(ड) सहकारी अंकेक्षणाचे फायदे सांगा. 5

किंवा

(इ) सहकारी अंकेक्षकाच्या जबाबदाऱ्या कोणत्या आहेत ? 5

(फ) मध्य अंकेक्षण म्हणजे काय ? 5

(ग) सहकारी अंकेक्षकाचे अधिकार स्पष्ट करा. 5

(ह) सतत अंकेक्षण म्हणजे काय ? 5

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :—(1) सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है।

(2) प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं।

1. सही विकल्प चुनिये :

(1) सभा में हुये कामकाज का विस्तृत टिपण कौन सी किताब में लिखा जाता है ?

(अ) इतिवृत

(ब) उपविधी

(क) घटनापत्रक

1

(2) सहकारी समिती की पहली साधारण सभा कौन बुलाता है ?

(अ) अध्यक्ष

(ब) अंकेक्षक

(क) प्रवर्तक

1

(3) पहली साधारण सभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है ?

(अ) केन्द्र सरकार

(ब) निबंधक

(क) सभा में उपस्थित आदमी

1

(4) भारत का पहला सहकारी अधिनियम कौनसे साल लागू हुआ ?

(अ) 1901

(ब) 1904

(क) 1905

1

(5) सहकारी समिती की सभा में सभासद का सभासदत्व रद्द करने का ठराव मजूर करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता है ?

(अ) $\frac{3}{4}$

(ब) $\frac{2}{3}$

(क) $\frac{2}{4}$

1

(6) सभा अधिनियम के अनुसार होने के लिए आवश्यक सभासदों की संख्या को क्या कहते हैं ?

(अ) कायदेशीर संख्या

(ब) गणसंख्या

(क) लोकसंख्या

1

(7) सहकारी समिती की मालकी किसके पास नहीं रहती है ?

(अ) अध्यक्ष

(ब) सभासद

(क) अंकेक्षक

1

(8) सहकारी समिती की सभा पर कौन नियंत्रण रखता है ?

(अ) सभा का अध्यक्ष

(ब) सचिव

(क) अंकेक्षक

1

(9) किसके सिफारिश से भारत में सहकारी अधिनियम 1904 लागू किया गया ?

(अ) सर एडवर्ड लॉ

(ब) रॉबर्ट ओवेन

(क) वैकुण्ठलाल मेहता

1

(10) महाराष्ट्र राज्य सहकारी समिती अधिनियम कौन से साल में लागू हुआ ?

(अ) 1904

(ब) 1932

(क) 1960

1

(11) पोटनियम (उपविधि) में बदल करने के लिए ठराव के पक्ष में कितने मत मिलना आवश्यक है ?

(अ) $\frac{2}{3}$

(ब) $\frac{3}{4}$

(क) $\frac{2}{4}$

1

(12) वार्षिक साधारण सभा साल में कितनी बार बुलाई जा सकती है ?

(अ) 01

(ब) 02

(क) 03

1

(13) सहकारी समिती की सभा मे मंजूर किए गए प्रस्ताव को क्या कहते हैं ?

(अ) विवरण

(ब) ठराव

(क) टिप्पणी

1

(14) सहकारी आंदोलन में ब्रम्हा, विष्णू, महेश किसको कहते हैं ?

(अ) अध्यक्ष

(ब) निबंधक

(क) सचिव

1

(15) सहकारी समिती को साल में एक बार अधिनियम के अनुसार कौनसी सभा लेना आवश्यक है ?

(अ) वार्षिक साधारण सभा

(ब) विशेष साधारण सभा

(क) पहली साधारण सभा

1

(16) अभी लागू बहुराज्यीय सहकारी अधिनियम कौनसे साल में लागू किया गया ?

(अ) 1944

(ब) 1960

(क) 2002

1

(17) विशेष साधारण सभा बुलाने के लिए कितने सभासदों द्वारा लिखित माँग करने की जरूरत है ?

(अ) $\frac{1}{3}$

(ब) $\frac{1}{4}$

(क) $\frac{1}{5}$ 1

(18) सहकारी समिती की वार्षिक साधारण सभा लेने की मुदत बढ़ाने का अधिकार किसको है ?

(अ) सचिव

(ब) निबंधक

(क) अध्यक्ष 1

(19) सहकारी समिती की सभा में निर्णायक मत देने का अधिकार किसको रहता है ?

(अ) सचिव

(ब) सभा का अध्यक्ष

(क) अंकेक्षक 1

(20) 1912 के सहकारी अधिनियम के अनुसार सहकारी समिती की स्थापना करने के लिए कम से कम कितने सभासदों की आवश्यकता थी ?

(अ) 05

(ब) 07

(क) 10 1

2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

- (अ) सहाय्यक पुस्तक किसे कहते हैं ? 5
(ब) रोकड़ पुस्तक किसे कहते हैं ? 5
(क) पुस्तपालन किसे कहते हैं ? 5
(ड) क्रय पुस्तक का स्वरूप स्पष्ट कीजिये। 5

अथवा

- (इ) सहाय्यक पुस्तकों के लाभ बताइये। 5
(फ) दो-रकानेका रोकड़ पुस्तक किसे कहते हैं ? 5
(ग) पुस्तपालन के लाभ बताइये। 5
(ह) साधे रोकड़ पुस्तक किसे कहते हैं ? 5
3. अधिकोष समाधान विवरण किसे कहते हैं ? वह किस लिए तैयार किया जाता है ? अधिकोष समाधान विवरण का महत्व बताइये। 20

अथवा

निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर श्री जगताप का 31 मार्च, 2014 का अधिकोष समाधान विवरण तैयार कीजिये :-

- (1) रोकड़ पुस्तक के अनुसार अधिकोष आधिक्य रु. 10,000.
(2) श्री राहुल ने रु. 800 सीधे बैंक में जमा किए, परंतु उसकी प्रविष्टी रोकड़ पुस्तक में नहीं की गयी।
(3) श्री हरी को रु. 500 का चेक दिया, मगर वह वसूली के लिए बैंक में भेजा नहीं गया।
(4) बैंक पासबुक में रु. 300 ब्याज के जमा किये गये हैं, मगर उसकी प्रविष्टी रोकड़ पुस्तक में नहीं हुई।
(5) रोकड़ पुस्तक में नोंद किया गया लेकिन बैंक में जमा न किया गया चेक रु. 200।
(6) बैंक की रु. 100 की सेवाशुल्क प्रविष्टि रोकड़ पुस्तक में नहीं की गयी। 20

4. परीक्षा सूची किसे कहते हैं ? परीक्षा सूची तैयार करने की विभिन्न पद्धतियाँ स्पष्ट कीजिए। 20

अथवा

ग्राहक सहकारी समिती, नांदगाव के 31 मार्च, 2014, के निम्नलिखित परीक्षा सूची से, 31 मार्च, 2014 वर्ष के लिए व्यापार लेखा, लाभालाभ लेखा और उसी तिथी का ताळेबंद तैयार कीजिये :

विवरण	नावे (रु.)	जमा (रु.)
आरंभिक स्कंध	40,000	—
क्रय	2,00,000	—
भृति	20,000	—
हमाली	10,000	—
यंत्रसामुग्री	1,50,000	—
वेतन	20,000	—
कार्यालय व्यय	10,000	—
ब्याज	15,000	—
बैंक में रोकड़	10,000	—
हाथ में रोकड़	5,000	—
अधमर्ण	40,000	—
गुंतवणुक	50,000	—
भाटक	12,000	—
विज्ञापन	18,000	—

विवरण	नावे (रु.)	जमा (रु.)
पूँजी	—	2,00,000
विक्रय	—	3,50,000
उत्तमर्ण	—	30,000
बैंक ऋण	—	20,000
	6,00,000	6,00,000

समायोजना : अंतिम स्कंध का मूल्य रु. 5,000 लगाया गया।

20

5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिये :

- (अ) वार्षिक अंकेक्षण किसे कहते हैं ? 5
- (ब) अंकेक्षण वर्ग किसे कहते हैं ? 5
- (क) सहकारी अंकेक्षण किसे कहते हैं ? 5
- (ड) सहकारी अंकेक्षण के लाभ बताइए। 5

अथवा

- (इ) सहकारी अंकेक्षण के उत्तरदायित्व कौनसे हैं ? 5
- (फ) मध्य अंकेक्षण किसे कहते हैं ? 5
- (ग) सहकारी अंकेक्षक के अधिकार स्पष्ट कीजिए। 5
- (ह) सतत अंकेक्षण किसे कहते हैं ? 5